



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2019/फाल्गुन 15, 1940

No. 164]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2019/ PHALGUNA 15, 1940

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019

सा.का.नि. 184(अ).—केंद्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित निर्धारित करती है, नामतः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम एक रुपया, दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये के सिक्का निर्माण नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सिक्कों का अंकित मूल्य.**—केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने हेतु एक रुपया, दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये और बीस रुपये मूल्यवर्ग के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा।
- सिक्कों की विमाएं और संरचना** - नियम 2 में उपर्युक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, नामतः :-

सिक्कों का मूल्यवर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक रुपया	वृत्ताकार 20 मिलीमीटर	शून्य	फेरिटिक स्टेनलेस स्टील जिसमें लोहा -83 प्रतिशत, क्रोमियम- 17 प्रतिशत होगा।

दो रुपये	वृत्ताकार 23 मिलीमीटर	किनारे पर 50 चौड़े दांते	फेरिटिक स्टेनलेस स्टील जिसमें लोहा -83 प्रतिशत, क्रोमियम- 17 प्रतिशत होगा।
पांच रुपये	वृत्ताकार 25 मिलीमीटर	शून्य	निकल पीतल तांबा- 75 प्रतिशत जस्ता – 20 प्रतिशत निकल- 05 प्रतिशत
दस रुपये	वृत्ताकार 27 मिलीमीटर	किनारे पर 100 दांते	बाह्य बलय निकल पीतल तांबा- 75 प्रतिशत जस्ता – 20 प्रतिशत निकल- 05 प्रतिशत मध्य भाग निकल चांदी तांबा- 65 प्रतिशत जस्ता – 15 प्रतिशत निकल- 20 प्रतिशत
बीस रुपये	12 किनारेदार (पाँलिंगन) 27 मिलीमीटर	शून्य	बाह्य बलय निकल चांदी तांबा- 65 प्रतिशत जस्ता – 15 प्रतिशत निकल- 20 प्रतिशत मध्य भाग निकल पीतल तांबा- 75 प्रतिशत जस्ता – 20 प्रतिशत निकल- 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन –सिक्कों का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

5. मानक वजन तथा अनुमत छूट- उपर्युक्त अंकित मूल्य के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुमत छूट इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

(क) एक रुपया :

(i) अग्र भाग :

सिक्के के मुख भाग पर अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर हिन्दी में “भारत” शब्द और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा।

दूसरी अनुसूची
(नियम 5 देखें)

सिक्कों का मूल्यवर्ग	मानक वजन	संरचना में अनुमत छूट	मानक वजन में अनुमत छूट
(1)	(2)	(3)	(4)
एक रुपया	3.09 ग्राम	क्रोमियम में 1/100वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् क्रोमियम के अंश में 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा।	1/25वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् वजन में 2.97 ग्राम से 3.21 ग्राम तक का अंतर हो सकेगा।
दो रुपये	4.07 ग्राम	क्रोमियम में 1/100वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् क्रोमियम के अंश में 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा।	1/25वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् वजन में 3.91 ग्राम से 4.23 ग्राम तक का अंतर हो सकेगा।
पांच रुपये	6.74 ग्राम	तांबा एवं जस्ता में 1/100वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् तांबे के अंश में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तथा जस्ते के अंश में 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा तथा निकल में 1/200वां कम या अधिक अर्थात् निकल के अंश में 4.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा।	1/40वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् वजन में 6.57 ग्राम से 6.91 ग्राम तक का अंतर हो सकेगा।
दस रुपये	7.74 ग्राम	बाह्य वलय (निकल पीतल) तांबा एवं जस्ता दोनों में 1/100वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् तांबे के अंश में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तथा जस्ते के अंश में 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा तथा निकल में 1/200वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् निकल के अंश में 4.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा। मध्य भाग (निकल चांदी) तांबा एवं जस्ता दोनों में 1/100वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् तांबे के अंश में 64 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तथा जस्ते के अंश में 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा तथा निकल में 1/100वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् निकल के अंश में 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा।	1/40वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् वजन में 7.55 ग्राम से 7.93 ग्राम तक का अंतर हो सकेगा।
बीस रुपये		बाह्य वलय (निकल चांदी) तांबा एवं जस्ता दोनों में 1/100वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् तांबे के अंश में 64 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तथा जस्ते के अंश में 14 प्रतिशत से 16 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा तथा निकल में 1/100वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् निकल के अंश में 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा।	1/40वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् वजन में 8.33 ग्राम से 8.75 ग्राम तक का अंतर हो सकेगा।

	8.54 ग्राम	मध्य भाग (निकल पीतल) तांबा एवं जस्ता दोनों में 1/100वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् तांबे के अंश में 74 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तथा जस्ते के अंश में 19 प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा तथा निकल में 1/200वां हिस्सा कम या अधिक अर्थात् निकल के अंश में 4.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत तक का अंतर हो सकेगा।	
--	------------	---	--

[फा. सं. 05/03/2018-सिक्का]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2019

G.S.R. 184(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) and clause (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Coinage of One Rupee, Two Rupees, Five Rupees, Ten Rupees and Twenty Rupees Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Denomination of Coins.**—The coins of One Rupee, Two Rupees, Five Rupees, Ten Rupees and Twenty Rupees shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government.
- Dimension and Composition of Coins.**—The coins of the above denominations mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of coins	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Rupee	Circular 20 Milli-meters	NIL	Ferritic Stainless Steel Containing Iron -83%, Chromium -17%
Two Rupees	Circular 23 Milli-meters	50 wider serrations on edge	Ferritic Stainless Steel Containing Iron -83%, Chromium -17%
Five Rupees	Circular 25 Milli-meters	NIL	Nickel Brass Copper: 75% Zinc: 20% Nickel: 05%

Ten Rupees	Circular 27 Milli-meters	100 Serrations on edge	<p><u>OUTER RING</u> Nickel Brass Copper: 75% Zinc: 20% Nickel: 05%</p> <p><u>CENTRE PIECE</u> Nickel Silver Copper: 65% Zinc: 15% Nickel: 20%</p>
Twenty Rupees	12 Edged (Polygon) 27 mm	NIL	<p><u>OUTER RING</u> Nickel Silver Copper: 65% Zinc: 15% Nickel: 20%</p> <p><u>CENTRE PIECE</u> Nickel Brass Copper: 75% Zinc: 20% Nickel: 05%</p>

4. **Design.**-The design of the coins shall be as specified in the First Schedule to these rules.
5. **Standard Weight and Remedy allowed.**-The standard weight of the coins of the above denomination and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

FIRST SCHEDULE

(See rule 4)

(a) ONE RUPEE:

(i) OBVERSE:

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right periphery with the word “INDIA” in English.

(ii) REVERSE:

The face of the coin shall bear denominational value “1” in the international numerals. The Rupee symbol “₹” shall be shown above the denominational value. The design of grains depicting the agricultural dominance of the country is flanked on the left periphery of the coin. The top right and bottom right peripheries shall bear the word “एक रुपया” in Hindi and “ONE RUPEE” in English. The year of minting in international numerals shall be shown on centre of left periphery of the coin.

(b) TWO RUPEES:**(iii) OBVERSE:**

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right periphery with the word “INDIA” in English.

(iv) REVERSE:

The face of the coin shall bear denominational value “2” in the international numerals. The Rupee symbol “₹” shall be shown above the denominational value. The design of grains depicting the agricultural dominance of the country is flanked on the left periphery of the coin. The top right and bottom right peripheries shall bear the word “दो रुपये” in Hindi and “TWO RUPEES” in English. The year of minting in international numerals shall be shown on centre of left periphery of the coin.

(c) FIVE RUPEES:**(v) OBVERSE:**

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right periphery with the word “INDIA” in English.

(vi) REVERSE:

The face of the coin shall bear denominational value “5” in the international numerals. The Rupee symbol “₹” shall be shown above the denominational value. The design of grains depicting the agricultural dominance of the country is flanked on the left periphery of the coin. The top right and bottom right peripheries shall bear the word “पाँच रुपये” in Hindi and “FIVE RUPEES” in English. The year of minting in international numerals shall be shown on centre of left periphery of the coin.

(d) TEN RUPEES:**(vii) OBVERSE:**

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right periphery with the word “INDIA” in English.

(viii) REVERSE:

The face of the coin shall bear denominational value “10” in the international numerals. The Rupee symbol “₹” shall be shown above the denominational value. The design of grains depicting the agricultural dominance of the country is flanked on the left periphery of the coin. The top right and bottom right peripheries shall bear the word “दस रुपये” in Hindi and “TEN RUPEES” in English. The year of minting in international numerals shall be shown on centre of left periphery of the coin.

(e) TWENTY RUPEES:**(ix) OBVERSE:**

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right periphery with the word “INDIA” in English.

(x) REVERSE:

The face of the coin shall bear denominational value “20” in the international numerals. The Rupee symbol “₹” shall be shown above the denominational value. The design of grains depicting the agricultural dominance of the country is flanked on the left periphery of the coin. The top right and bottom right peripheries shall bear the word “बीस रुपये” in Hindi and “TWENTY RUPEES” in English. The year of minting in international numerals shall be shown on centre of left periphery of the coin.

SECOND SCHEDULE

(See rule 5)

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed in composition	Remedy allowed in standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Rupee	3.09 grams	1/100 th plus or minus for Chromium, that is to say, Chromium content could vary between 16% to 18%.	1/25 th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 2.97 grams to 3.21 grams
Two Rupees	4.07 grams	1/100 th plus or minus for Chromium, that is to say, Chromium content could vary between 16% to 18%.	1/25 th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 3.91 grams to 4.23 grams
Five Rupees	6.74 grams	1/100 th plus or minus for Copper and Zinc , that is to say, Copper content could vary from 74% to 76% and Zinc content from 19% to 21% and 1/200 th plus or minus for Nickel, that is to say Nickel content could vary from 4.5% to 5.5%.	1/40 th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 6.57 grams to 6.91grams
Ten Rupees	7.74 grams	Outer Ring (Nickel Brass): 1/100 th plus or minus both for Copper and Zinc, that is to say, Copper content could vary from 74% to 76% and Zinc content from 19% to 21% and 1/200 th plus or minus for Nickel, that is to say Nickel content could vary from 4.5% to 5.5%. Centre Piece (Nickel Silver): 1/100 th plus or minus both for Copper and Zinc , that is to say, Copper content could vary from 64% to 66% and Zinc content from 14% to 16% and 1/100 th plus or minus for Nickel, that is to say Nickel content could vary from 19% to 21%.	1/40 th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 7.55 grams to 7.93 grams
Twenty Rupees	8.54 grams	Outer Ring (Nickel Silver): 1/100 th plus or minus for both Copper and Zinc , that is to say, Copper content could vary from 64% to 66% and Zinc content from 14% to 16% and 1/100 th plus or minus for Nickel, that is to say Nickel content could vary from 19% to 21%. Centre Piece (Nickel Brass): 1/100 th plus or minus for both	1/40 th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 8.33 grams to 8.75 grams

		Copper and Zinc , that is to say, Copper content could vary from 74% to 76% and Zinc content from 19% to 21% and 1/200 th plus or minus for Nickel, that is to say Nickel content could vary from 4.5% to 5.5%.	
--	--	--	--

[F. No. 05/03/2018-Coin]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.